

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 12, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं